



**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक:- 10.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारों के प्रति किया जागरूक ।**

महिलाओं/बच्चियों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों एवं उनके उत्पीडन के रोकथाम हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता अभियान \*मिशन शक्ति फेज-3.0\* के तहत आज दिनांक **10.11.2021** को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर गठित एण्टी रोमियो टीम द्वारा जागरूकता अभियान के तहत रामकथा मार्ग व छोटी चन्द्रिका देवी मन्दिर में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं से उनकी समस्याओं के बारे में जाना गया तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा मौजूद व्यक्तियों से भी महिलाओं एवं बालिकाओं को सहयोग प्रदान करने की अपील की गयी।

जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुये बताया गया कि आपको अगर कोई भी परेशान करता है तो उसकी शिकायत आप अपने नजदीकी थाने में स्थापित **'महिला हेल्प डेस्क'** में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारी से बिना डरे हुये अपनी बात पूरी गोपनीयता के साथ कर सकती हैं जिस पर तुरन्त कार्यवाही करते हुये आपकी समस्या का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जायेगा।

इसके साथ ही टीमों द्वारा अन्य हेल्पलाइन नम्बरों वूमैन पावर लाइन-1090, महिला हेल्प लाइन-181, आपातकालीन सेवा यूपी - 112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर-1076, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, साइबर अपराध हेल्पलाइन- 155260 एवं महिला कानूनों के साथ-साथ सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 10.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## यातायात माह नवम्बर के तहत यातायात पुलिस द्वारा निःशुल्क परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

आज दिनांक 10.11.2021 को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार चलाये जा रहे यातायात माह नवम्बर 2021 के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राम प्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में यातायात जागरूकता अभियान के तहत यातायात प्रभारी निरीक्षक श्री अनिरुद्ध सिंह एवं यातायात पुलिस कर्मचारियों के द्वारा रोड बेज बस स्टैण्ड पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण, कान परीक्षण बी.पी. परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 156 आटो व ई-रिक्शा व साइकिल रिक्शा व बस चालको/परिचालकों का परीक्षण कराया गया तथा सभी को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया गया इसी क्रम में बिना वैध ड्राइविंग लाइसेन्स के वाहन चलाये जाने के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें 98 वाहनों के ई-चालान की कार्यवाही जनपदीय यातायात पुलिस द्वारा की गयी।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 10.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **थाना कोतवाली पुलिस टीम ने दो नफर वाछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार**



आज दिनांक 10.11.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे वाँछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना प्रभारी कोतवाली उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम ने अभियुक्तगण 1-बसन्ता यादव पुत्र शिवनारायण उम्र 20 वर्ष 2-अखिलेश अहिरवार पुत्र हल्के उम्र 25वर्ष निवासीगण ग्राम नैगवां

थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा के कब्जे से 02 अदद बैट्री क्रमशः-livefast रंग काला नांरगी जिस पर GISCBARE08602B7FDLTR90FFL व दूसरी बैट्री पर ACI5130T324308OMM-AM-TR510B31L बरामद कर गिरफ्तार किया गया जिनके संबंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 474/21 धारा-379/411 भादवि पंजीकृत है तथा अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण**

1-बसन्ता यादव पुत्र शिवनारायण उम्र 20 वर्ष 2-अखिलेश अहिरवार पुत्र हल्के उम्र 25 वर्ष निवासीगण ग्राम नैगवां थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा

### **बरामदगी -**

1. -livefast रंग काला नांरगी बैट्री GISCBARE08602B7FDLTR90FFL
2. बैट्री ACI5130T324308OMM-AM-TR510B31L

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री सुमित नारायण तिवारी प्रभारी चौकी पसवारा थाना कोतवाली जनपद महोबा
2. कां0 राजीव कुमार



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 10.11.2021**

# महोबा पुलिस



**मीडिया सेल, महोबा**

**जनपदीय पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्र के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में भारी पुलिसबल के साथ भ्रमण किया गया तथा यातायात नियमों के प्रति लोगों को किया गया जागरूक**

आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत यातायात प्रभारी तथा जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक तथा राहगीरों को यातायात नियमों के संबंध में पम्पलेट भी दिए गये।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **159** ई-चालान किये गये।



आज दिनांक 10.11.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब कि दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक:- 10.11.2021

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



Mahoba Police